

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसिद्धाकरण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 262]

नई दिल्ली, बुध्पतिवार, नवम्बर 1, 1973/कार्तिक 10, 1895

No. 262]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 1, 1973/KARTIKA 10, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 1st November 1973

G.S.R. 484(E)—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 188/73-Central Excises, dated the 1st October, 1973, the Central Government hereby fixes a tariff value of two hundred and sixty rupees per quintal for sugar falling under sub-item (1) of Item No. 1 of the First Schedule to the said Act and chargeable with duty *ad valorem*.

Provided that nothing contained in this notification shall apply to sugar required by the Central Government to be sold under clause (f) of sub-section (2) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955).

[No. 192/73.]

S R. NARAYANAN, Under Secy.

(1533)

(वित्त मंत्रालय)

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 1973

सं० का० नि० 484(अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और तमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के (राजस्व और बीमा विभाग) की तारीख 1 अक्टूबर, 1973 की अधिसूचना संख्या 188/73 के० उ० शु० को अतिष्ठित करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची की मद सं० 1 को उपमद संख्या (1) के अन्तर्गत आने वाली और मूल्यानुसार शुल्क से प्रभार्य चीनी के लिए दो सौ साठ रुपये प्रति क्विंटल मूल्य एतद्द्वारा नियत करती है।

परन्तु इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट कोई भी बात केन्द्रीय सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उपधारा (2) क्लेज (ठ) के अधीन बिक्री की जाने के लिए अपेक्षित चीनी पर लागू नहीं होगी।

[सं० 192/73]

एस० आर० नारायणन, अवर सचिव।

MINISTRY OF RAILWAYS

ERRATA

In the Ministry of Railways (Railway Board) Notification No. 73-Sec./SPL/6/15, dated the 20th September, 1973 published at pages 1375—1381 in the Gazette of India Extraordinary, Part II—Section 3—sub-section (i) as Issue No. 233 dated the 20th September, 1973, the following corrections are to be made:—

At page 1378—

- (1) Substitute the word 'other' for the word 'the' occurring between the words 'All' and 'posts' under para 5(b)(4).
- (2) Substitute the figure '24' for the figure '34' occurring under Para 6.

At page 1380—

- (1) Insert the word 'Special' after the words 'Railway Protection' occurring in the heading of Col. 4 in Schedule II.
- (2) Substitute the words 'All members of the Force' for the word 'Do.' appearing against Sl. No. 2(d) under the heading 'Deputy Chief Security Officer' in Schedule II.